



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1937 (श10)

(सं0 पटना 1076) पटना, शुक्रवार, 18 सितम्बर 2015

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

18 सितम्बर 2015

सं0 बी1-3-80/2015-25—बिहार राज्य की सभी विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं0-434/बिहार-वि.स./2015 (2) दिनांक 15.09.2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सोहन कुमार ठाकुर,

संयुक्त सचिव—सह—

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांक 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 (शक)

सं० 434/बिहार-वि.स./2015 (2):- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या 434/बिहार-वि.स./2009 (2) दिनांक 23 अगस्त, 2010 व समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, बिहार सरकार के परामर्श से, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकार के अधिकारी को उनके सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में यथाविनिर्दिष्ट बिहार राज्य के विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है :-

सारणी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
1- वाल्मीकिनगर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बगहा-2 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरासी 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबनी 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, भित्ता 5.प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठकराहा 6.अंचल अधिकारी, पिपरासी 7.अंचल अधिकारी, मधुबनी 8.अंचल अधिकारी, भित्ता 9.अंचल अधिकारी, ठकराहा 10.जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया
2- रामनगर (अ०जा०)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामनगर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौनाहा 3.अंचल अधिकारी, रामनगर 4.अंचल अधिकारी, गौनाहा
3- नरकटियागंज	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरकटियागंज 2.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना शाखा अनुमंडल -नरकटियागंज। 3.अंचल अधिकारी, नरकटियागंज 4.अंचल अधिकारी, लौरिया
4- बगहा	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बगहा-1 2.अंचल अधिकारी, बगहा-1 3.अंचल अधिकारी, बगहा-2 4.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा अनुमंडल, बगहा।
5- लौरिया	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, लौरिया 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, योगापट्टी 3.अंचल अधिकारी, योगापट्टी
6- नौतन	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैरिया 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौतन 3.अंचल अधिकारी, बैरिया 4.अंचल अधिकारी, नौतन
7- चनपटिया	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, चनपटिया 2.अंचल अधिकारी, चनपटिया 3.अंचल अधिकारी, मझौलिया
8- बेतिया	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेतिया 2.अंचल अधिकारी, बेतिया 3.कार्यपालक दंडाधिकारी -सह-प्रभारी पदाधिकारी नीलाम पत्र शाखा, अनुमंडल बेतिया 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझौलिया

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
9- सिकटा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मैनाटांड 2. अंचल अधिकारी, मैनाटांड 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकटा 4. अंचल अधिकारी, सिकटा
10- रक्सौल	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रक्सौल 2. अंचल अधिकारी, रक्सौल 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, आदापुर 4. अंचल अधिकारी, आदापुर
11- सुगौली	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़वा 2. अंचल अधिकारी, रामगढ़वा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुगौली 4. अंचल अधिकारी, सुगौली
12- नरकटिया	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, छौडादानों (नरकटिया) 2. अंचल अधिकारी, छौडादानों (नरकटिया) 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बंजरिया 4. अंचल अधिकारी, बंजरिया
13- हरसिद्धि (अ0जा0)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरसिद्धि 2. अंचल अधिकारी, हरसिद्धि 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, तुरकौलिया 4. अंचल अधिकारी, तुरकौलिया
14- गोविन्दगंज	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरेराज 2. अंचल अधिकारी, अरेराज 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पहाड़पुर 4. अंचल अधिकारी, पहाड़पुर
15- केसरिया	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर 2. अंचल अधिकारी, संग्रामपुर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसरिया 4. अंचल अधिकारी, केसरिया
16- कल्याणपुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोटवा 2. अंचल अधिकारी, कोटवा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कल्याणपुर 4. अंचल अधिकारी, कल्याणपुर
17- पिपरा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, चकिया 2. अंचल अधिकारी, चकिया 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहसी 4. अंचल अधिकारी, मेहसी
18- मधुबन	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पकड़ीदयाल 2. अंचल अधिकारी, पकड़ीदयाल 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबन 4. अंचल अधिकारी, मधुबन
19- मोतिहारी	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोतिहारी 2. अंचल अधिकारी, मोतिहारी 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीपराकोठी 4. अंचल अधिकारी, पीपराकोठी
20- चिरैया	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, चिरैया 2. अंचल अधिकारी, चिरैया 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पताही 4. अंचल अधिकारी, पताही

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
21- ढाका	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोड़ासहन 2. अंचल अधिकारी, घोड़ासहन 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, ढाका 4. अंचल अधिकारी, ढाका
22- शिवहर	1. भूमि सुधार उप-समाहर्ता, शिवहर 2. अंचल अधिकारी, शिवहर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवहर
23- रीगा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रीगा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैरगनियाँ 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौी 4. अंचल अधिकारी, रीगा 5. अंचल अधिकारी, बैरगनियाँ 6. अंचल अधिकारी, सुपौी
24- बथनाहा (अ0जा0)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बथनाहा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेजरगंज 3. अंचल अधिकारी, बथनाहा 4. अंचल अधिकारी, मेजरगंज
25- परिहार	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, परिहार 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनबरसा 3. अंचल अधिकारी, परिहार 4. अंचल अधिकारी, सोनबरसा
26- सुरसंड	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुरसंड 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, चोरौत 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुपरी 4. अंचल अधिकारी, सुरसंड 5. अंचल अधिकारी, चोरौत 6. अंचल अधिकारी, पुपरी
27- बाजपट्टी	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाजपट्टी 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोखरा 3. अंचल अधिकारी, बाजपट्टी 4. अंचल अधिकारी, बोखड़ा 5. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, नजारत शाखा, अनुमंडल-पुपरी
28- सीतामढ़ी	1. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, उर्दू एवं विकास प्रशाखा, अनुमंडल -सीतामढ़ी सदर 2. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य, स्थापना और सामाजिक सुरक्षा प्रशाखा, अनुमंडल-सीतामढ़ी सदर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरा 4. अंचल अधिकारी, डुमरा
29- रून्नीसैदपुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नानपुर 3. अंचल अधिकारी, रून्नीसैदपुर 4. अंचल अधिकारी, नानपुर

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
30- बेलसंड	1. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी आय, आवासीय, जाति, परिवार एवं शिक्षा प्रशाखा, अनुमंडल-बेलसण्ड 2. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जन्म, मृत्यु, शपथ, विकास, आपदा, कल्याण एवं निर्वाचन प्रशाखा, अनुमंडल-बेलसण्ड 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलसण्ड 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसौनी 5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरियानी 6. अंचल अधिकारी, परसौनी 7. अंचल अधिकारी, बेलसण्ड 8. अंचल अधिकारी, तरियानी
31- हरलाखी	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधवापुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरलाखी 3. अंचल अधिकारी, बेनीपट्टी 4. अंचल अधिकारी, मधवापुर 5. अंचल अधिकारी, हरलाखी
32- बेनीपट्टी	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेनीपट्टी 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलुआही 3. अंचल अधिकारी, कलुआही
33- खजौली	1. भूमि सुधार उप-समाहर्ता, जयनगर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बासोपट्टी 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जयनगर 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, खजौली
34- बाबूबरही	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, लदनियाँ 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही 3. अंचल अधिकारी, खजौली 4. अंचल अधिकारी, लदनियाँ 5. अंचल अधिकारी, बाबूबरही
35- बिस्फी	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिस्फी 2. अंचल अधिकारी, बिस्फी 3. अंचल अधिकारी, रहिका
36- मधुबनी	1. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, नजारत शाखा, अनुमंडल-मधुबनी 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहिका 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पण्डौल 4. अंचल अधिकारी, पण्डौल
37- राजनगर (अ0जा0)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर 2. अंचल अधिकारी, राजनगर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी 4. अंचल अधिकारी, अंधराठाढ़ी
38- झंझारपुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, झंझारपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर 3. अंचल अधिकारी, मधेपुर 4. अंचल अधिकारी, झंझारपुर 5. अंचल अधिकारी, लखनौर
39- फुलपरास	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुर 4. अंचल अधिकारी, फुलपरास 5. अंचल अधिकारी, घोघरडीहा

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
40- लौकहा	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, खुटौना 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, लौकही 3.अंचल अधिकारी, फुलपरास 4.अंचल अधिकारी, लौकही
41- निर्मली	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, राघोपुर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरायगढ़- भपटियाही 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, निर्मली 4.अंचल अधिकारी, निर्मली 5.भूमि सुधार उप-समाहर्ता, निर्मली
42- पिपरा	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, किसनपुर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरा 3.अंचल अधिकारी, किसनपुर 4.अंचल अधिकारी, पिपरा 5.वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी निदेशक, डी०आर०डी०ए०, सुपौल
43- सुपौल	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मरौना 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल 3.अंचल अधिकारी, मरौना 4.अंचल अधिकारी, सुपौल 5.वरीय उप समाहर्ता-सह-जिला स्थापना उप समाहर्ता, सुपौल
44- त्रिवेणीगंज (अ०जा०)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज 3.अंचल अधिकारी, प्रतापगंज 4.अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज 5.भूमि सुधार उप-समाहर्ता, त्रिवेणीगंज
45- छातापुर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, छातापुर 3.अंचल अधिकारी, बसंतपुर 4.अंचल अधिकारी, छातापुर 5.भूमि सुधार उप-समाहर्ता, वीरपुर
46- नरपतगंज	1.वरीय उप समाहर्ता -सह-प्रभारी पदाधिकारी जिला पंचायत शाखा, अररिया 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरपतगंज 3.अंचल अधिकारी, नरपतगंज 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, भरगामा
47- रानीगंज (अ०जा०)	1.वरीय उप समाहर्ता- सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला नजारत, अररिया 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, रानीगंज 3.अंचल अधिकारी, रानीगंज 4.अंचल अधिकारी, भरगामा
48- फारबिसगंज	1.वरीय उप समाहर्ता- सह-प्रभारी, जिला राजस्व प्रशाखा, अररिया 2.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, कल्याण शाखा, अनुमंडल -फारबिसगंज 3.अंचल अधिकारी, फारबिसगंज 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, फारबिसगंज
49- अररिया	1.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, कल्याण शाखा, अनुमंडल-अररिया 2.कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया 3.अंचल अधिकारी, अररिया 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, अररिया

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
50- जोकीहाट	1. वरीय उप समाहर्ता- सह-प्रभारी जिला आपूर्ति शाखा, अररिया 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाकीहाट 3. अंचल अधिकारी, जाकीहाट 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी
51- सिकटी	1. वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी जिला स्थापना, अररिया 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुर्साकांटा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकटी 4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अररिया
52- बहादुरगंज	1. अंचल अधिकारी, बहादुरगंज 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघलबैंक 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरगंज
53- ठाकुरगंज	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज 2. अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज 3. अंचल अधिकारी, दिघलबैंक
54- किशनगंज	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज 2. अंचल अधिकारी, पोठिया 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पोठिया
55- कोचाधामन	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचाधामन 2. अंचल अधिकारी, कोचाधामन 3. अंचल अधिकारी, किशनगंज
56- अमौर	1. अंचल अधिकारी, बैसा, 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैसा
57- बायसी	1. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, अनुमंडल-वायसी 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, डगरुआ 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, वायसी
58- कसबा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कसबा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जलालगढ़ 3. अंचल अधिकारी, श्रीनगर 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृत्यानन्द नगर
59- बनमनखी (अ0जा0)	1. भूमि सुधार उप समाहर्ता, बनमनखी 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनमनखी 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा कोठी 4. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, निर्वाचन शाखा, अनुमंडल-बनमनखी
60- रुपौली	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, भवानीपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रुपौली 3. अंचल अधिकारी, बड़हरा कोठी 4. अंचल अधिकारी, रुपौली
61- धमदाहा	1. अंचल अधिकारी, धमदाहा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, धमदाहा 3. अंचल अधिकारी, कृत्यानन्द नगर
62- पूर्णियाँ	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णिया पूर्व 2. अंचल अधिकारी, पूर्णिया पूर्व 3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद पूर्णिया 4. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना शाखा, अनुमंडल-पूर्णिया सदर

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
63- कटिहार	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, हसनगंज 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटिहार 3.अंचल पदाधिकारी, कटिहार
64- कदवा	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, डंडखोरा 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कदवा 3.अंचल पदाधिकारी, कदवा
65- बलरामपुर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बलरामपुर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारसोई 3.अंचल पदाधिकारी, बलरामपुर
66- प्राणपुर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्राणपुर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, आजमनगर 3.अंचल पदाधिकारी, प्राणपुर
67- मनिहारी (अ0ज0जा0)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनसाही 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिहारी 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमदाबाद
68- बरारी	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, समेली 2.अंचल अधिकारी, कुर्सेला 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुर्सेला 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरारी
69- कोढ़ा (अ0जा0)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, फलका 2.अंचल अधिकारी, कोढ़ा 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोढ़ा 4.अंचल अधिकारी, फलका
70- आलमनगर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, आलमनगर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौसा
71- बिहारीगंज	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा
72- सिंहेश्वर (अ0जा0)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, शकरपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर 3. अंचल अधिकारी, कुमारखंड
73- मधुपेरा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुपुरा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़ 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज
74- सोनवर्षा (अ0जा0)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनबरसा 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरघट 3.अंचल अधिकारी, बनमाईटहरी 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनमाईटहरी
75- सहरसा	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहरा 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सौरबाजार 3.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना शाखा, अनुमंडल सदर, सहरसा
76- सिमरी बख्तियारपुर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सलखुआ 3.अंचल अधिकारी, महिषी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
77- महिषी	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, महिषी 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवहट्टा 3.अंचल अधिकारी, नवहट्टा 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सत्तरकटैया
78- कुशेश्वरस्थान (अ0जा0)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी 3.अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी
79- गौड़ाबौराम	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिरौल 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौड़ाबौराम 3.अंचल अधिकारी, किरतपुर
80- बेनीपुर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेनीपुर 2.अंचल अधिकारी, बहेड़ी 3.अंचल अधिकारी, बिरौल
81- अलीनगर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारडीह 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, घनश्यामपुर 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलीनगर
82- दरभंगा ग्रामीण	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनीगाछी 2.अंचल अधिकारी, दरभंगा सदर 3.अंचल अधिकारी, मनीगाछी
83- दरभंगा	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर दरभंगा 2.अंचल अधिकारी, बहादुरपुर 3.सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा
84- हायाघाट	1.अंचल अधिकारी, हायाघाट 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, हायाघाट 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहेड़ी
85- बहादुरपुर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, हनुमाननगर 2.अंचल अधिकारी, हनुमाननगर 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर
86- केवटी	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, केवटी 2.अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा 3.अंचल अधिकारी, केवटी
87- जाले	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले 2.अंचल अधिकारी, जाले 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा
88- गायघाट	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, गायघाट 2.अंचल अधिकारी, बन्दरा 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बन्दरा
89- औराई	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, औराई 2.अंचल अधिकारी, औराई 3.अंचल अधिकारी, कटरा
90- मीनापुर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मीनापुर 2.अंचल अधिकारी, मीनापुर 3.अंचल अधिकारी, गायघाट
91- बोचहाँ (अ0जा0)	1.अंचल अधिकारी, बोचहाँ 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोचहाँ 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुशहरी
92- सकरा (अ0जा0)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरौल 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सकरा 3.अंचल अधिकारी, सकरा

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
93- कुढ़नी	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुढ़नी 2. अंचल अधिकारी, कुढ़नी 3.अंचल अधिकारी, सरैया
94- मुजफ्फरपुर	1.कार्यपालक दंडाधिकारी –सह-प्रभारी पदाधिकारी, न्यायालय शाखा, अनुमंडल –मुजफ्फरपुर पूर्वी 2.कार्यपालक दंडाधिकारी–सह-प्रभारी पदाधिकारी, प्रमाण पत्र शाखा, अनुमंडल मुजफ्फरपुर पूर्वी 3.अंचल अधिकारी, मुशहरी 4.सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर
95- काँटी	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, काँटी 2.अंचल अधिकारी, काँटी 3.अंचल अधिकारी, मडवन
96- बरुराज	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोतीपुर 2.अंचल अधिकारी, मोतीपुर 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, पारू
97- पारू	1.कार्यपालक दंडाधिकारी –सह-प्रभारी पदाधिकारी, न्यायालय शाखा, अनुमंडल–मुजफ्फरपुर पश्चिमी 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मडवन 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरैया 4. अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर
98- साहेबगंज	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज 2.अंचल अधिकारी, साहेबगंज 3.अंचल अधिकारी, पारू
99- बैकुण्ठपुर	1. अंचल अधिकारी, बरौली 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिधवलिया 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर 4. अंचल अधिकारी, बैकुण्ठपुर
100- बरौली	1. कार्यपालक दंडाधिकारी–सह-प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, अनुमंडल–गोपालगंज 2. अंचल अधिकारी, मांझा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरौली 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझा
101- गोपालगंज	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज 2. अंचल अधिकारी, गोपालगंज 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, थावे 4. अंचल अधिकारी, उचकागांव
102- कुचायकोट	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचदेवरी 2. अंचल अधिकारी, पंचदेवरी 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट 4. अंचल अधिकारी, कुचायकोट
103- भोरे (अ0जा0)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, भोरे 2. अंचल अधिकारी, भोरे 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटेया 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, विजयीपुर
104- हथुआ	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, हथुआ 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, उचकागांव 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलवरीया 4. कार्यपालक दंडाधिकारी–सह-प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना शाखा, अनुमंडल–हथुआ

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
105- सिवान	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिवान सदर 2.अंचल अधिकारी, बड़हरिया 3.कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सिवान
106- जीरादेई	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवतन 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, जीरादेई 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेरवां
107- दरौली (अ0जा0)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, गुठनी 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरौली 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, आन्दर
108- रघुनाथपुर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज 2.अंचल अधिकारी, हसनपुरा 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, रघुनाथपुर
109- दरौदा	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, हसनपुरा 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिसवन 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरौदा
110- बड़हरिया	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरिया 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, पचरुखी 3.अंचल अधिकारी, पचरुखी
111- गोरेयाकोठी	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोरेयाकोठी 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, लकड़ी नवीगंज
112- महाराजगंज	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, महाराजगंज 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर हाट 3.अंचल पदाधिकारी, महाराजगंज
113- एकमा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकमा 2. अंचल अधिकारी, एकमा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, लहलादपुर 4. अंचल अधिकारी, लहलादपुर
114- मांझी	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी 2. अंचल अधिकारी, मांझी 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जलालपुर 4. अंचल अधिकारी, जलालपुर
115- बनियापुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनियापुर 2. अंचल अधिकारी, बनियापुर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक 4. अंचल अधिकारी, मशरक
116- तरैया	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पानापुर 2. अंचल अधिकारी, पानापुर 3. अंचल अधिकारी, इसुआपुर 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया
117- मढ़ौरा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मढ़ौरा 2. अंचल अधिकारी, मढ़ौरा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगरा 4. अंचल अधिकारी, नगरा

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
118- छपरा	1. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जाति प्रमाण पत्र शाखा, अनुमंडल-सदर छपरा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज 3. अंचल अधिकारी, रिविलगंज 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर छपरा
119- गरखा (अ0जा0)	1. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, आवासीय, चरित्र, आय एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा, अनुमंडल-सदर छपरा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गरखा 3. अंचल अधिकारी, गरखा 4. अंचल अधिकारी, सदर, छपरा
120- अमनौर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमनौर 2. अंचल अधिकारी, अमनौर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मकरे 4. अंचल अधिकारी, मकरे
121- परसा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसा 2. अंचल अधिकारी, परसा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरियापुर 4. अंचल अधिकारी, दरियापुर
122- सोनपुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघवारा 2. अंचल अधिकारी, दिघवारा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर 4. अंचल अधिकारी, सोनपुर
123- हाजीपुर	1. अंचल अधिकारी, हाजीपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, हाजीपुर 3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हाजीपुर
124- लालगंज	1. अंचल अधिकारी, भगवानपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, लालगंज 4. अंचल अधिकारी, लालगंज
125- वैशाली	1. अंचल अधिकारी, गोरौल 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोरौल 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, वैशाली 4. अंचल अधिकारी, वैशाली
126- महुआ	1. अंचल अधिकारी, चेहराकला 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, चेहराकला 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, महुआ 4. अंचल अधिकारी, महुआ
127- राजापाकर (अ0जा0)	1. अंचल अधिकारी, राजापाकड़ 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजापाकड़ 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, देसरी
128- राघोपुर	1. अंचल अधिकारी, बिदुपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिदुपुर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, राघोपुर 4. अंचल अधिकारी, राघोपुर
129- महनार	1. अंचल अधिकारी, महनार 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जन्दाहा

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
130- पातेपुर (अ0जा0)	1. अंचल अधिकारी, पातेपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पातेपुर 3. अंचल अधिकारी, जन्दाहा
131- कल्याणपुर (अ0जा0)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कल्याणपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूसा 3. अंचल अधिकारी, कल्याणपुर 4. अंचल अधिकारी, पूसा
132- वारिसनगर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, वारिसनगर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, खानपुर 3. अंचल अधिकारी, वारिसनगर 4. अंचल अधिकारी, खानपुर 5. अंचल अधिकारी, शिवाजीनगर
133- समस्तीपुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, ताजपुर 3. अंचल अधिकारी, समस्तीपुर (जितवारपुर) 4. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, अनुमंडल-समस्तीपुर
134- उजियारपुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, उजियारपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, दलसिंहसराय 3. अंचल अधिकारी, उजियारपुर 4. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, कल्याण शाखा, अनुमंडल-दलसिंहसराय
135- मोरवा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोरवा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाहपुर पटोरी 3. अंचल अधिकारी, मोरवा 4. अंचल अधिकारी, ताजपुर
136- सरायरंजन	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरायरंजन 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, विद्यापतिनगर 3. अंचल अधिकारी, सरायरंजन 4. अंचल अधिकारी, विद्यापतिनगर
137- मोहिउद्दीननगर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहिउद्दीननगर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर 3. अंचल अधिकारी, मोहिउद्दीननगर 4. अंचल अधिकारी, शाहपुर पटोरी 5. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, विधि प्रशाखा, अनुमंडल-पटोरी
138- विभूतिपुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, विभूतिपुर 2. अंचल अधिकारी, विभूतिपुर 3. अंचल अधिकारी, दलसिंहसराय 4. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, कल्याण शाखा, अनुमंडल-रोसड़ा
139- रोसड़ा (अ0जा0)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोसड़ा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंधिया 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवाजीनगर 4. अंचल अधिकारी, रोसड़ा

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
140- हसनपुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, हसनपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिथान 3. अंचल अधिकारी, हसनपुर 4. अंचल अधिकारी, बिथान 5. अंचल अधिकारी, सिधिया
141- चेरिया बरियारपुर	1. भूमि सुधार उप समाहर्ता, मंझौल 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, चेरिया बरियारपुर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, खोदावन्दपुर
142- बछवाड़ा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बछवाड़ा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर 3. अंचल अधिकारी, मंसूरचक 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मंसूरचक
143- तेघड़ा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरौनी 2. अंचल अधिकारी, बरौनी 3. अंचल अधिकारी, तेघड़ा
144- मटिहानी	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मटिहानी 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय 3. अंचल अधिकारी, मटिहानी
145- साहेबपुर कमाल	1. भूमि सुधार उप समाहर्ता, बलिया 2. अंचल अधिकारी, बलिया 3. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बलिया 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बलिया
146- बेगूसराय	1. जिला सहायक आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय 2. अंचल अधिकारी, बेगूसराय 3. अंचल अधिकारी, वीरपुर
147- बखरी (अ0जा0)	1. भूमि सुधार उप समाहर्ता, बखरी 2. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत कोषांग, अनुमंडल- बखरी 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गढ़पुरा
148- अलौली (अ0जा0)	1. कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल खगड़िया 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अलौली 3. अंचल अधिकारी, अलौली 4. अंचल अधिकारी, खगड़िया
149- खगड़िया	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मानसी 3. अंचल अधिकारी, मानसी
150- बेलदौर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलदौर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौथम 3. अंचल अधिकारी, बेलदौर 4. अंचल अधिकारी, चौथम
151- परवत्ता	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोगरी 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, परवत्ता 3. अंचल अधिकारी, गोगरी 4. अंचल अधिकारी, परवत्ता
152- बिहपुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, खरीक 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारायणपुर 4. अंचल अधिकारी, बिहपुर 5. अंचल अधिकारी, खरीक 6. अंचल अधिकारी, नारायणपुर

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
153- गोपालपुर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवगछिया 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंगराचौक 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, इस्माईलपुर 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालपुर 5. अंचल अधिकारी, गोपालपुर 6. अंचल अधिकारी, नवगछिया 7. कार्यपालक दंडाधिकारी, नवगछिया
154- पीरपैती (अ0जा0)	1.कार्यपालक दंडाधिकारी, कहलगांव 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरपैती 3.अंचल अधिकारी, कहलगांव 4.अंचल अधिकारी, पीरपैती
155- कहलगांव	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सन्हौला 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोराडीह 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहलगांव 4.अंचल अधिकारी, सन्हौला
156- भागलपुर	1.कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर, भागलपुर 2. अंचल अधिकारी, जगदीशपुर 3. अंचल अधिकारी, नाथनगर
157- सुलतानगंज	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुलतानगंज 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाहकुंड 3.अंचल अधिकारी, सुलतानगंज 4.अंचल अधिकारी, शाहकुंड
158- नाथनगर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नाथनगर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सबौर 4.अंचल अधिकारी, सबौर
159- अमरपुर	1.वरीय उपसमाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा, बांका 2.अंचल अधिकारी, शंभूगंज 3.अंचल अधिकारी, अमरपुर
160- धोरैया (अ0जा0)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, रजौन 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, धोरैया 3.अंचल अधिकारी, धोरैया 4.अंचल अधिकारी, रजौन
161- बांका	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बांका 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराहाट 3.अंचल अधिकारी, बांका 4.अंचल अधिकारी, बाराहाट
162- कटोरिया (अ0ज0जा0)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाँसी 2.अंचल अधिकारी, कटोरिया 3.अंचल अधिकारी, बाँसी 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटोरिया
163- बेलहर	1.वरीय उप समाहर्ता-सह-जिला योजना पदाधिकारी, बाँका 2.अंचल अधिकारी, बेलहर 3.अंचल अधिकारी, चान्दन 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुल्लीडुमर 5.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलहर

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
164- तारापुर	1.भूमि सुधार उप समाहर्ता, खड़गपुर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज 5.प्रखंड विकास पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर 6.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, कल्याण शाखा, अनुमंडल-तारापुर
165- मुंगेर	1.वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, मुंगेर। 2.अंचल अधिकारी, सदर, मुंगेर 3.अंचल अधिकारी, बरियारपुर 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर, मुंगेर 5.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना शाखा, अनुमंडल-सदर मुंगेर
166- जमालपुर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर 2.अंचल अधिकारी, धरहरा 3.अंचल अधिकारी, जमालपुर 4.अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर
167- सूर्यगढ़ा	1.अंचल अधिकारी, सूर्यगढ़ा 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा 3.अंचल अधिकारी, चानन 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरिया 5.प्रखंड विकास पदाधिकारी, चानन 6.अंचल अधिकारी, पिपरिया
168- लखीसराय	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ चौक 2.अंचल अधिकारी, हलसी 3.अंचल अधिकारी, लखीसराय 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, हलसी 5.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हिया 6.अंचल अधिकारी, रामगढ़ चौक
169- शेखपुरा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, घाटकुसुम्भा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, चेवाड़ा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरियरी
170- बरबीघा	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरबीघा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, शेखोपुरसराय 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, शेखुपरा
171- अस्थावाँ	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिन्द 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरमेरा 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, अस्थावाँ 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कतरीसराय 5.अंचल अधिकारी, अस्थावाँ 6.अंचल अधिकारी, बिन्द
172- बिहारशरीफ	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारशरीफ 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहुई 3.अंचल अधिकारी, रहुई 4.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, निर्वाचन शाखा, अनुमंडल -बिहारशरीफ 5.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, कल्याण शाखा, अनुमंडल -बिहारशरीफ

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
173- राजगीर (अ0जा0)	1. भुमि सुधार उप समाहर्ता, राजगीर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिलाव 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजगीर 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरियक 5. अंचल अधिकारी, बिहारशरीफ
174- इस्लामपुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकंगरसराय 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, इस्लामपुर 3. अंचल अधिकारी, इस्लामपुर 4. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, कल्याण शाखा, अनुमंडल-हिलसा 5. अंचल अधिकारी, एकंगरसराय
175- हिलसा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, हिलसा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, परबलपुर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, करायपरसुराय 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, थरथरी 5. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना शाखा, अनुमंडल-हिलसा 6. अंचल अधिकारी, हिलसा 7. अंचल अधिकारी, थरथरी 8. अंचल अधिकारी, करायपरसुराय
176- नालंदा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नूरसराय 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेन 3. अंचल अधिकारी, सिलाव 4. अंचल अधिकारी, नूरसराय 5. अंचल अधिकारी, बेन 6. अंचल अधिकारी, राजगीर 7. वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन, नालन्दा
177- हरनौत	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, चंडी 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, हरनौत 3. अंचल अधिकारी, नगरनौसा 4. अंचल अधिकारी, चंडी 5. अंचल अधिकारी, हरनौत 6. वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत शाखा, नालंदा 7. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगरनौसा
178- मोकामा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पण्डारक 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोकामा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसवरी 4. अंचल अधिकारी, पण्डारक 5. अंचल अधिकारी, मोकामा 6. अंचल अधिकारी, घोसवरी 7. कार्यपालक दंडाधिकारी, बाढ़
179- बाढ़	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाढ़ 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलछी 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अथमलगोला 4. अंचल अधिकारी, बाढ़ 5. अंचल अधिकारी, बेलछी 6. अंचल अधिकारी, अथमलगोला

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
180- बख्तियारपुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बख्तियारपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, खुसरूपुर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, दनियावाँ 4. अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर 5. अंचल अधिकारी, बख्तियारपुर
181- दीघा	1. वरीय उपसमाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना शाखा, अनुमंडल कार्यालय, पटना सदर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना सदर 3. अंचल अधिकारी, पटना सदर 4. वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पटना 5. कार्यपालक दंडाधिकारी, पटना सदर 6. विद्यालय अवर निरीक्षक गर्दनीबाग अंचल, पटना 7. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर-1
182- बाँकीपुर	1. वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पटना 2. वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत शाखा, पटना 3. वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलामपत्र शाखा, पटना 4. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर-2 5. कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम 6. कार्यपालक पदाधिकारी, बाँकीपुर अंचल, पटना नगर निगम 7. विद्यालय अवर निरीक्षक, गोलघर अंचल, पटना 8. प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना सदर
183- कुम्हारार	1. उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना 2. वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा, पटना 3. वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (वरीय), पटना 4. वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (कनीय) पटना 5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पटना (माध्यमिक शिक्षा) 6. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर-03 7. सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना 8. पणन पदाधिकारी, पटना अनुभाजन
184- पटना साहिब	1. वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, आपूर्ति शाखा, अनुमंडल, पटना सिटी 2. वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना शाखा, अनुमंडल, पटना सिटी 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सम्पतचक 4. अंचल अधिकारी, दनियावाँ 5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटना सदर 6. कार्यपालक दंडाधिकारी-1, पटना सिटी 7. कार्यपालक दंडाधिकारी-2, पटना सिटी 8. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर-5
185- फतुहा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, फतुहा 2. अंचल अधिकारी, फतुहा 3. अंचल अधिकारी, सम्पतचक 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सम्पतचक

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
186- दानापुर	1. वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना शाखा, अनुमंडल -दानापुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, दानापुर 3. अंचल अधिकारी, दानापुर 4. कार्यपालक दंडाधिकारी, दानापुर 5. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दानापुर
187- मनेर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनेर 2. अंचल अधिकारी, मनेर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहटा 4. अंचल अधिकारी, बिहटा
188- फुलवारी (अ0जा0)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ 2. अंचल अधिकारी, फुलवारीशरीफ 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन 4. अंचल अधिकारी, पुनपुन
189- मसौढ़ी (अ0जा0)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मसौढ़ी 2. अंचल अधिकारी, मसौढ़ी 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनरुआ 4. अंचल अधिकारी, धनरुआ 5. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मसौढ़ी
190- पालीगंज	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पालीगंज 2. अंचल अधिकारी, पालीगंज 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुल्हिन बाजार 4. अंचल अधिकारी, दुल्हिन बाजार 5. कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल पालीगंज
191- बिक्रम	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिक्रम 2. अंचल अधिकारी, बिक्रम 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौबतपुर 4. अंचल अधिकारी, नौबतपुर
192- संदेश	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदवंतनगर 2. अंचल अधिकारी, कोईलवर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, संदेश 4. अंचल अधिकारी, संदेश
193- बड़हरा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बड़हरा 2. अंचल अधिकारी, बड़हरा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोईलवर 4. अंचल अधिकारी, आरा
194- आरा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा 2. अंचल अधिकारी, आरा 3. कार्यपालक दंडाधिकारी-सह- प्रभारी पदाधिकारी, निर्वाचन शाखा, अनुमंडल- आरा सदर
195- अगिआँव (अ0जा0)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़हनी 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, चरपोखरी 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अगिआँव 4. अंचल अधिकारी, अगिआँव
196- तरारी	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरारी 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहार 3. अंचल अधिकारी, तरारी 4. अंचल अधिकारी, पीरो

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
197- जगदीशपुर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, जगदीशपुर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीरो 3.अंचल अधिकारी, जगदीशपुर 4.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा अनुमंडल-जगदीशपुर
198- शाहपुर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाहपुर 2.अंचल अधिकारी, शाहपुर 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहियाँ 4.अंचल अधिकारी, बिहियाँ
199- ब्रह्मपुर	1.वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, समाहरणालय, बक्सर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, चक्की 4. अंचल अधिकारी, चक्की
200- बक्सर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बक्सर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौसा 3.कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल-बक्सर 4.अंचल अधिकारी, बक्सर
201- डुमराँव	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नावानगर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, केसठ 3.अंचल अधिकारी, डुमराँव 3.कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल-डुमराँव
202- राजपुर (अ0जा0)	1.कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर 3.अंचल अधिकारी, ईटाढ़ी 4.अंचल अधिकारी, राजपुर
203- रामगढ़	1.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, अनुमंडल- मोहनियाँ 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, दुर्गावती 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नुआँव 5.अंचल अधिकारी, रामगढ़ 6.अंचल अधिकारी, दुर्गावती 7.अंचल अधिकारी, नुआँव
204- मोहनियाँ (अ0जा0)	1.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, नजारत शाखा, अनुमंडल-मोहनियाँ 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनियाँ 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुदरा 4.अंचल अधिकारी, मोहनियाँ 5.अंचल अधिकारी, कुदरा
205- भभुआ	1.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, नजारत शाखा, अनुमंडल-भभुआ 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, भभुआ 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामपुर 4.अंचल अधिकारी, भभुआ 5.अंचल अधिकारी, रामपुर 6. कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, भभुआ

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
206- चैनपुर	1.कार्यपालक दंडाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, कल्याण शाखा, अनुमंडल-भभुआ 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, चाँद 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, चैनपुर 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर 5.प्रखंड विकास पदाधिकारी, अधौरा 6.अंचल अधिकारी, चाँद 7.अंचल अधिकारी, चैनपुर 8.अंचल अधिकारी, भगवानपुर 9.अंचल अधिकारी, अधौरा
207- चेनारी (अ०जा०)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, चेनारी 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवसागर 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोहतास 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नौहट्टा
208- सासाराम	1. वरीय उप समाहर्ता, सासाराम-सह-प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी, सासाराम अनुमंडल 2.कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सासाराम, रोहतास 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, तिलौथू, रोहतास 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सासाराम, रोहतास
209- करगहर	1.अंचल अधिकारी, करगहर, रोहतास 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचस, रोहतास 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, करगहर, रोहतास 4.अंचल अधिकारी, शिवसागर, रोहतास
210- दिनारा	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, दावथ 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिनारा 3.अंचल अधिकारी, सुर्यपुरा 4.अंचल अधिकारी, दावथ
211- नोखा	1.जिला योजना पदाधिकारी, रोहतास 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नोखा 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नासरीगंज
212- डिहरी	1.भूमि सुधार उप समाहर्ता, डिहरी 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, डिहरी 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, अकोढीगोला 4.अंचल अधिकारी, डिहरी
213- काराकाट	1.सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ, बिक्रमगंज अंचल 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, काराकाट 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज 4.अंचल अधिकारी, संझौली
214- अरवल	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कलेर 3. अंचल अधिकारी, अरवल 4. कार्यपालक दंडाधिकारी, अरवल
215- कुर्था	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, करपी 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनभद्र-वंशी-सूर्यपुर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुर्था
216- जहानाबाद	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद 2.अंचल अधिकारी, जहानाबाद 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, रतनी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
217- घोसी	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसी 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुलासगंज 3.अंचल अधिकारी, मोदनगंज
218- मखदुमपुर (अ0जा0)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मखदुमपुर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, काको 3.अंचल अधिकारी, मखदुमपुर
219- गोह	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, हसपुरा 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोह 3.अंचल अधिकारी, हसपुरा
220- ओबरा	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, दाउदनगर 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, ओबरा 3.अंचल अधिकारी, दाउदनगर
221- नवीनगर	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारुण 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नबीनगर 3.अंचल अधिकारी, बारुण
222- कुटुम्बा (अ0जा0)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुटुम्बा 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, देव 3.अंचल अधिकारी, कुटुम्बा
223- औरंगाबाद	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद 2.अंचल अधिकारी, देव 3.अंचल अधिकारी, औरंगाबाद
224- रफीगंज	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, रफीगंज 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मदनपुर 3.अंचल अधिकारी, रफीगंज
225- गुरुआ	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, गुरारु 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, पैरया 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, गुरुआ 4. अंचल अधिकारी, गुरारु 5. अंचल अधिकारी, पैरया 6. अंचल अधिकारी, गुरुआ
226- शेरघाटी	1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, शेरघाटी 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, शेरघाटी 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, डोभी 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, आमस 5.अंचल अधिकारी, शेरघाटी 6.अंचल अधिकारी, डोभी 7.अंचल अधिकारी, आमस
227- इमामगंज (अ0जा0)	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, डुमरिया 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, इमामगंज 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बांकेबाजार 4.अंचल अधिकारी, डुमरिया 5.अंचल अधिकारी, इमामगंज 6.अंचल अधिकारी, बांकेबाजार
228- बाराचट्टी (अ0जा0)	1.अंचल अधिकारी, बोधगया 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराचट्टी 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर 4.अंचल अधिकारी, मोहनपुर 5.अंचल अधिकारी, बाराचट्टी

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
229- बोध गया (अ0जा0)	1.कार्यालय पदाधिकारी, नगर पंचायत, बोधगया 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोधगया 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, टनकुप्पा 4.प्रखंड विकास पदाधिकारी, फतेहपुर 5.अंचल अधिकारी, टनकुप्पा 6.अंचल अधिकारी, फतेहपुर
230- गया टाउन	1.अपर नगर आयुक्त, गया नगर निगम 2.कार्यपालक अभियंता (1) गया नगर निगम 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर प्रखंड 4.कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल-सदर गया 5. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नगर प्रखंड, गया
231- टिकारी	1.कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, टिकारी 2.प्रखंड विकास पदाधिकारी, टिकारी 3.प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोंच 4.अंचल अधिकारी, टिकारी 5.अंचल अधिकारी, कोंच
232- बेलागंज	1.प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेलागंज 2.अंचल अधिकारी, बेलागंज 3.अंचल अधिकारी, नगर गया 4.बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेलागंज
233- अतरी	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, खिजरसराय 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नीमचक बथानी 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अतरी 4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहड़ा 5. अंचल अधिकारी, खिजरसराय 6. अंचल अधिकारी, नीमचक बथानी 7. अंचल अधिकारी, अतरी 8. अंचल अधिकारी, मोहड़ा
234- वजीरगंज	1. कार्यपालक अभियंता (II), गया नगर निगम 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, वजीरगंज 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मानपुर 4. अंचल अधिकारी, वजीरगंज 5. अंचल अधिकारी, मानपुर6.बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मानपुर
235- रजौली (अ0जा0)	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रजौली 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेसकौर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिरदला 4. अंचल अधिकारी, सिरदला
236- हिसुआ	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, हिसुआ 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अकबरपुर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नरहट 4. अंचल अधिकारी, नरहट
237- नवादा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवादा सदर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज 3. अंचल अधिकारी, नवादा सदर 4. अंचल अधिकारी, नारदीगंज
238- गोविन्दपुर	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोविन्दपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, कौआकोल 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोह 4. अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर

विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी
1	2
239- वारिसलीगंज	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, वारसलीगंज 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, पकरीवरावाँ 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, काशीचक 4. अंचल अधिकारी, पकरीवरावाँ
240- सिकन्दरा (अ0जा0)	1. अंचल अधिकारी, ईस्लामनगर अलीगंज 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिकन्दरा 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, खैरा
241- जमुई	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमुई 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरहट 3. अंचल अधिकारी, खैरा 4. अंचल अधिकारी, जमुई
242- झांझा	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, लक्ष्मीपुर 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिद्धौर 3. प्रखंड विकास पदाधिकारी, झांझा
243- चकाई	1. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनो 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, चकाई 3. अंचल अधिकारी, चकाई

आदेश से,
आर0 के0 श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated 15th September, 2015/24

Bhadrapada, 1937 (SAKA)

No. 434/BR-L/2015(2):—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 22 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951), and in supervision of its notification No. 434/BR-LA/2009 (2), date 23rd August, 2010 as amended from time to time, the Election Commission of India hereby designates, in consultation with the Government of Bihar, the officer of the Government specified in column 2 of the Table below, as the Assistant Returning Officer of the Assembly Constituency in the State of Bihar, as specified in column 1 of the Table against such officer –

TABLE

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
1-Valmiki Nagar	1.Block Development Officer, Bagaha-2 2.Block Development Officer, Piprasi 3.Block Development Officer, Madhubani 4.Block Development Officer, Bhitaha 5.Block Development Officer, Thakara 6.Circle Officer, Piprasi 7.Circle Officer, Madhubani 8.Circle Officer, Bhitaha 9.Circle Officer, Thakraha 10. District Panchayat Raj Officer, West Champaran, Bettiah
2-Ramnagar (SC)	1.Block Development Officer, Ramnagar 2.Block Development Officer, Gaunaha 3.Circle Officer, Ramnagar 4.Circle Officer, Gaunaha
3-Narkatiaganj	1.Block Development Officer, Narkatiaganj 2.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge Establishment Section, Subdivision Narkatiaganj 3.Circle Officer, Narkatiaganj 4.Circle Officer, Lauria
4-Bagaha	1.Block Development Officer, Bagaha-1 2.Circle Officer, Bagaha-1 3.Circle Officer, Bagaha-2 4.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge General Section Subdivision, Bagaha

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
5-Lauriya	1.Block Development Officer, Lauria 2.Block Development Officer, Yogapatti 3.Circle Officer, Yogapatti
6-Nautan	1.Block Development Officer, Bairia 2.Block Development Officer, Nautan 3.Circle Officer, Bairia 4.Circle Officer, Nautan
7-Chanpatia	1.Block Development Officer, Chanpatia 2.Circle Officer, Chanpatia 3.Circle Officer, Majhauria
8-Bettiah	1.Block Development Officer, Bettiah 2.Circle Officer, Bettiah 3.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge Certificate Section, Subdivision - Bettiah 4. Block Development Officer, Majhauria
9-Sikta	1.Block Development Officer, Mainatand 2.Circle Officer, Mainatand 3.Block Development Officer, Sikta 4.Circle Officer, Sikta
10-Raxaul	1. Block Development Officer, Raxaul 2. Circle Officer, Raxaul 3. Block Development Officer, Adapur 4. Circle Officer, Adapur
11-Sugauli	1. Block Development Officer, Ramgarhwa 2. Circle Officer, Ramgarhwa 3. Block Development Officer, Sugauli 4. Circle Officer, Sugauli
12-Narkatia	1. Block Development Officer, Chhoradano (Narkatia) 2. Circle Officer, Chhoradano (Narkatia) 3. Block Development Officer, Banjaria 4. Circle Officer, Banjaria
13-Harsidhi (SC)	1. Block Development Officer, Harsidhi 2. Circle Officer, Harsidhi 3. Block Development Officer, Turkaulia 4. Circle Officer, Turkaulia
14-Govindganj	1. Block Development Officer, Areraj 2. Circle Officer, Areraj 3. Block Development Officer, Paharpur 4. Circle Officer, Paharpur
15-Kesaria	1. Block Development Officer, Sangrampur 2. Circle Officer, Sangrampur 3. Block Development Officer, Kesaria 4. Circle Officer, Kesaria

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
16-Kalyanpur	1. Block Development Officer, Kotwa 2. Circle Officer, Kotwa 3. Block Development Officer, Kalyanpur 4. Circle Officer, Kalyanpur
17-Pipra	1. Block Development Officer, Chakiya 2. Circle Officer, Chakiya 3. Block Development Officer, Mehshi 4. Circle Officer, Mehshi
18-Madhuban	1. Block Development Officer, Pakridayal 2. Circle Officer, Pakridayal 3. Block Development Officer, Madhuban 4. Circle Officer, Madhuban
19-Motihari	1. Block Development Officer, Motihari 2. Circle Officer, Motihari 3. Block Development Officer, Piprakothi 4. Circle Officer, Piprakothi
20-Chiraia	1. Block Development Officer, Chiraiya 2. Circle Officer, Chiraiya 3. Block Development Officer, Patahi 4. Circle Officer, Patahi
21-Dhaka	1. Block Development Officer, Ghorasahan 2. Circle Officer, Ghorasahan 3. Block Development Officer, Dhaka 4. Circle Officer, Dhaka
22-Sheohar	1. Deputy Collector Land Reform, Sheohar 2. Circle Officer, Sheohar 3. Block Development Officer, Sheohar
23-Riga	1. Block Development Officer, Riga 2. Block Development Officer, Bairganja 3. Block Development Officer, Suppi 4. Circle Officer, Riga 5. Circle Officer, Bairganja 6. Circle Officer, Suppi
24-Bathnaha (SC)	1. Block Development Officer, Bathnaha 2. Block Development Officer, Majorganj 3. Circle Officer, Bathnaha 4. Circle Officer, Majorganj
25-Parihar	1. Block Development Officer, Parihar 2. Block Development Officer, Sonbarsa 3. Circle Officer, Parihar 3. Circle Officer, Sonbarsa

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
26-Sursand	1. Block Development Officer,Sursand 2. Block Development Officer,Choraut 3. Block Development Officer,Pupri 4. Circle Officer, Sursand 5. Circle Officer, Choraut 6. Circle Officer, Pupri
27-Bajpatti	1. Block Development Officer,Bajpatti 2. Block Development Officer, Bokhra 3. Circle Officer, Bajpatti 4. Circle Officer, Bokhra 5. Executive Magistrate-cum Officer Incharge, Nazarat Section, Subdivision-Pupri
28-Sitamarhi	1. Executive Magistrate-cum-Officer Incharge Urdu and Development Section, Subdivision-Sitamarhi Sadar 2. Executive Magistrate-cum Officer Incharge General Establishment and Social Security Section, Subdivision-Sitamarhi Sadar 3. Block Development Officer,Dumra 4. Circle Officer, Dumra
29-Runnisaidpur	1. Block Development Officer, Runnisaidpur 2. Block Developemnt Officer, Nanpur 3. Circle Officer, Runnisaidpur 4. Circle Officer, Nanpur
30-Belsand	1.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Income,Residential,Caste, Faimly and Education section, Subdivison-Belsand 2. Executive Magistrate -cum-Officer Incharge Birth, Death, Affidavit, Development, Disaster, Welfare and Election Section Subdivision-Belsanad 3. Block Development Officer, Belsand 4. Block Development Officer, Parsauni 5.Block Development Officer, Tariyani 6. Circle Officer, Parsauni 7. Circle Officer, Belsand 8.Circle Officer, Tariyani
31-Harlakhi	1. Block development Officer, Madhwapur 2. Block Development officer, Harlakhi 3. Circle Officer, Benipatti 4. Circle Officer, Madhwapur 5. Circle Officer, Harlakhi

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
32- Benipatti	1. Block Development Officer, Benipatti 2. Block Development Officer, Kaluahi 3. Circle Officer, Kaluahi
33-Khajauli	1. Land Reforms Deputy Collector, Jayanagar 2. Block Development Officer, Basopatti 3. Block Development Officer, Jayanagar 4. Block Development Officer, Khajauli
34-Babubarhi	1. Block Development Officer, Ladania 2. Block Development Officer, Babubarhi 3. Circle Officer, Khajauli 4. Circle Officer, Ladania 5. Circle Officer, Babubarhi
35-Bisfi	1. Block Development Officer, Bisfi 2. Circle Officer, Bisfi 3. Circle Officer, Rahika
36-Madhubani	1. Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Nazarat Section, Subdivision- Madhubani 2. Block Development Officer, Rahika 3. Block Development Officer, Pandual 4. Circle Officer, Pandual
37-Rajnagar (SC)	1. Block Development Officer, Rajnagar 2. Circle Officer, Rajnagar 3. Block Development Officer, Andharathadi 4. Circle Officer, Andharathadi
38-Jhanjharpur	1. Block Development Officer, Jhanjharpur 2. Block Development Officer, Lakhsaur 3. Circle Officer, Madhepur 4. Circle Officer, Jhanjharpur 5. Circle Officer, Lakhsaur
39-Phulparas	1. Block Development Officer, Phulparas 2. Block Development Officer, Ghoghardiha 3. Block Development Officer, Madhepur 4. Circle Officer, Phulparas 5. Circle Officer, Ghoghardiha
40-Laukaha	1. Block Development Officer, Khutauna 2. Block Development Officer, Laukahi 3. Circle Officer, Phulparas 4. Circle Officer, Laukahi
41-Nirmali	1. Block Development Officer, Raghapur 2. Block Development Officer, Saraygardh-Bhaptiyahi 3. Block Development Officer, Nirmali 4. Circle Officer, Nirmali 5. Deputy Collector Land Reform, Nirmali

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
42-Pipra	1.Block Development Officer, Kishanpur 2.Block Development Officer, Pipra 3.Circle Officer, Kishanpur 4.Circle Officer, Pipra 5. Senior Deputy Collector-cum-Incharge Director, DRDA,Supaul
43-Supaul	1.Block Development Officer, Marauna 2.Block Development Officer, Supaul 3.Circle Officer, Marauna 4.Circle Officer, Supaul 5. Senior Deputy Collector-cum-District Establishment Deputy Collector, Supaul
44-Triveniganj (SC)	1.Block Development Officer, Pratapganj 2.Block Development Officer, Triveniganj 3.Circle Officer, Pratapganj 4.Circle Officer, Triveniganj 5. Deputy Collector Land Reform, Triveniganj
45-Chhatapur	1.Block Development Officer, Basantpur 2.Block Development Officer, Chhatapur 3.Circle Officer, Basantpur 4.Circle Officer, Chhatapur 5.Deputy Collector Land Reform, Birpur
46-Narpatganj	1.Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge, District Panchayat Section, Araria 2.Block Development Officer, Narpatganj 3.Circle Officer, Narpatganj 4.Block Development Officer, Bhargama
47-Raniganj (SC)	1.Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge, District Nazarat, Araria 2.Block Development Officer, Raniganj 3.Circle Officer, Raniganj 4.Circle Officer, Bhargama
48-Forbesganj	1.Senior Deputy Collector-cum- Officer Incharge, District Revenue Section, Araria 2.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Welfare Section, Subdivision- Forbesganj. 3.Circle Officer, Forbesganj 4.Block Development Officer, Forbesganj

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
49-Araria	1.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Welfare Section, Subdivision-Araria 2.Executive Officer, Nagar Parishad, Araria 3.Circle Officer, Araria 4.Block Development Officer, Araria
50-Jokihat	1.Senior Deputy Collector-cum- Officer Incharge, District Supply Section, Araria 2.Block Development Officer, Jokihat 3.Circle Officer, Jokihat 4.Block Development Officer, Palasi
51-Sikti	1.Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge, District Establishment, Araria 2.Block Development Officer, Kursakanta 3.Block Development Officer, Sikti 4.District Minority Welfare Officer, Araria
52-Bahadurganj	1. Circle Officer, Bahadurganj 2. Block Development Officer, Dighalbank 3. Block Development Officer, Bahadurganj
53-Thakurganj	1. Block Development Officer,Thakurganj 2. Circle Officer, Thakurganj 3. Circle Officer, Dighalbank
54-Kishanganj	1. Block Development Officer, Kishanganj 2. Circle Officer, Pothia 3. Block Development Officer,Pothia
55-Kochadhaman	1. Block Development Officer,Kochadhaman 2. Circle Officer, Kochadhaman 3. Circle Officer, Kishanganj
56-Amour	1.Circle Officer, Baisa 2.Block Development Officer, Amour 3.Block Development Officer, Baisa
57-Baisi	1.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, General Section, Subdivision-Baisi 2.Block Development Officer, Dagarua 3.Block Development Officer, Baisi
58-Kasba	1.Block Development Officer, Kasba 2.Block Development Officer, Jalalgarh 3.Circle Officer, Srinagar 4.Block Development Officer, Krityanand Nagar

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
59-Banmankhi (SC)	1.Land Reforms Deputy Collector., Banmankhi 2.Block Development Officer, Banmankhi 3.Block Development Officer, Barhara Kothi 4.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Election Section, Subdivision- Banmankhi
60-Rupauli	1.Block Development Officer, Bhawanipur 2.Block Development Officer, Rupauli 3.Circle Officer, Barhara Kothi 4.Circle Officer, Rupauli
61-Dhamdaha	1.Circle Officer, Dhamdaha 2.Block Development Officer, Dhamdaha 3.Circle Officer, Krityanand Nagar
62-Purnia	1.Block Development Officer, Purnia East 2.Circle Officer, Purnia East 3.Executive Officer, Nagar Parishad Purnia 4.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Establishment Section, Subdivision-Purnia Sadar
63-Katihar	1.Block Development Officer, Hasanganj 2.Block Development Officer, Katihar 3.Circle Officer, Katihar
64-Kadwa	1.Block Development Officer, Dandkhora 2.Block Development Officer, Kadwa 3.Circle Officer., Kadwa
65-Balrampur	1.Block Development Officer, Balrampur 2.Block Development Officer, Barsoi 3.Circle Officer, Balrampur
66-Pranpur	1.Block Development Officer, Pranpur 2.Block Development Officer, Azamnagar 3.Circle officer., Pranpur
67-Manihari (ST)	1.Block Development Officer, Mansahi 2.Block Development Officer, Manihari 3.Block Development Officer, Amdabad
68-Barari	1.Block Development Officer, Sameli 2. Circle Officer, Kursela 3.Block Development Officer, Kursela 4.Block Development Officer, Barari
69-Korha (SC)	1.Block Development Officer, Falka 2.Circle Officer, Korha 3.Block Development Officer, Korha 4.Circle Officer, Falka

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
70-Alamnagar	1. Block Development Officer, Puraini 2. Block Development Officer, Alamnagar 3. Block Development Officer, Chousa
71-Bihariganj	1. Block Development Officer, Udakishunganj 2. Block Development Officer, Bihariganj 3. Block Development Officer, Gualpara
72-Singheshwar (SC)	1. Block Development Officer, Shankarpur 2. Block Development Officer, Singheswar 3. Circle Officer, Kumarkhand
73-Madhepura	1. Block Development Officer, Madhepura 2. Block Development Officer, Dhailadh 3. Block Development Officer, Murliganj
74-Sonbarsha (SC)	1. Block Development Officer, Sonbarsa 2. Block Development Office, Patarghat 3. Circle Officer, Banmaitahari 4. Block Development Officer, Banmaitahari
75-Saharsa	1. Block Development Officer, Kahara 2. Block Development Officer, Saurbazar 3. Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Establishment Section, Subdivision Sadar, Saharsa
76-Simri Bakhtiarapur	1. Block Development Officer, Simribakhtiarapur 2. Block Development Officer, Salkhua 3. Circle Officer, Mahishi
77-Mahishi	1. Block Development Officer, Mahishi 2. Block Development Officer, Nauhatta 3. Circle Officer, Nauhatta 4. Block Development Officer, Sattarkataiya
78-Kusheshwar Asthan (SC)	1. Block Development Officer, Kusheswarsthan 2. Block Development Officer, Kusheswarsthan (East) 3. Circle Officer, Kueshwarasthan (East)
79-Gaura Bauram	1. Block Development Officer, Biraul 2. Block Development Officer, Gaurabauram 3. Circle Officer, Kiratpur
80-Benipur	1. Block Development Officer, Benipur 2. Circle Officer, Baheri 3. Circle Officer, Biroul

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
81-Alinagar	1.Block Development Officer, Taradih 2.Block Development Officer, Ghanshyampur 3.Block Development Officer, Alinagar
82-Darbhanga Rural	1.Block Development Officer, Manigachhi 2.Circle Officer, Darbhanga Sadar 3.Circle Officer, Manigachhi
83-Darbhanga	1.Block Development Officer, Sadar Darbhanga 2.Circle Officer, Bahadurpur 3.Assistant District Supply Officer, Sadar Darbhanga
84-Hayaghat	1.Circle Officer, Hayaghat 2.Block Development Officer, Hayaghat 3.Block Development Officer, Baheri
85-Bahadurpur	1.Block Development Officer, Hanumannagar 2.Circle Officer, Hanumannagar 3.Block Development Officer, Bahadurpur
86-Keoti	1.Block Development Officer, Keoti 2.Circle Officer, Singhwara 3.Circle Officer, Keoti
87-Jale	1.Block Development Officer, Jale 2.Circle Officer, Jale 3.Block Development Officer, Singhwara
88-Gaighat	1.Block Development Officer, Gaighat 2.Circle Officer, Bandra 3.Block Development Officer, Bandra
89-Aurai	1.Block Development Officer, Aurai 2.Circle Officer, Aurai 3.Circle Officer, Katra
90-Minapur	1.Block Development Officer, Minapur 2.Circle Officer, Minapur 3.Circle Officer, Gayghat
91-Bochahan (SC)	1.Circle Officer, Bochahan 2.Block Development Officer, Bochahan 3.Block Development Officer, Mushahari
92-Sakra (SC)	1.Block Development Officer, Moraul 2.Block Development Officer, Sakra 3.Circle Officer, Sakra
93-Kurhani	1.Block Development Officer, Kurhani 2.Circle Officer, Kurhani 3.Circle Officer, Saraiya

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
94-Muzaffarpur	1.Executive Magistrate -cum-Officer Incharge, Court Section, Subdivision-Muzaffarpur East 2.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Certificate Section, Subdivision-Muzaffarpur East 3.Circle Officer, Mushahari 4. Assistant District Supply Officer, East Muzaffarpur
95-Kanti	1.Block Development Officer, Kanti 2.Circle Officer, Kanti 3.Circle Officer, Marwan
96-Baruraj	1.Block Development Officer, Motipur 2.Circle Officer, Motipur 3.Block Development Officer,Paroo
97-Paroo	1.Executive Magistrate -cum-officer Incharge Court Section, Muzaffarpur West 2.Block Development Officer, Madvan 3.Block Development Officer, Sariaya 4. Subdivision Welfare Officer, West Muzaffarpur
98-Sahebganj	1.Block Development Officer, Sahebganj 2.Circle Officer, Sahebganj 3.Circle Officer, Paroo
99-Baikunthpur	1. Circle Officer, Barauli 2. Block Development Officer, Sidhwalia 3. Block Development Officer, Baikunthpur 4. Circle Officer, Baikunthpur
100-Barauli	1. Executive Magistrate -cum-Officer Incharge Legal Section, Subdivision-Gopalganj 2. Circle Officer, Manjha 3. Block Development Officer, Barauli 4.Block Development Officer, Manjha
101-Gopalganj	1. Block Development Officer, Gopalganj 2. Circle Officer, Gopalganj 3. Block Development Officer, Thawe 4. Circle Officer, Uchkagaon
102-Kuchaikote	1. Block Development Officer, Panchdeori 2. Circle Officer, Panchdeori 3. Block Development Officer, Kuchaikote 4. Circle Officer, Kuchaikote

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
103-Bhore (SC)	1. Block Development Officer, Bhore 2. Circle Officer, Bhore 3. Block Development Officer, Keteya 4. Block Development Officer, Vijayeeupur
104-Hathua	1. Block Development Officer, Hathua 2. Block Development Officer, Uchkagaon 3. Block Development Officer, Phulwariya 4. Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Personnel Section, Subdivision-Hathua
105-Siwan	1. Block Development Officer, Siwan Sadar 2. Circle Officer, Barharia 3. Executive Officer, Nagar Parishad, Siwan
106-Ziradei	1. Block Development Officer, Nautan 2. Block Development Officer, Ziradei 3. Block Development Officer, Mairwa
107-Darauli (SC)	1. Block Development Officer, Guthani 2. Block Development Officer, Darauli 3. Block Development Officer, Andar
108-Raghunathpur	1. Block Development Officer, Hussainganj 2. Circle Officer, Hasanpura 3. Block Development Officer, Raghunathpur
109-Daraunda	1. Block Development Officer, Hasanpura 2. Block Development Officer, Siswan 3. Block Development Officer, Daraunda
110-Barharia	1. Block Development Officer, Barharia 2. Block Development Officer, Pachrukhi 3. Circle Officer, Pachrukhi
111-Goriakothi	1. Block Development Officer, Goriakothi 2. Block Development Officer, Basantpur 3. Block Development Officer, Lakri Naviganj
112-Maharajganj	1. Block Development Officer, Maharajganj 2. Block Development Officer, Bhagwanpur Hat 3. Circle Officer, Maharajganj
113-Ekma	1. Block Development Officer, Ekma 2. Circle Officer, Ekma 3. Block Development Officer, Lahladpur 4. Circle Officer, Lahladpur

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
114-Manjhi	1. Block Development Officer, Manjhi 2. Circle Officer, Manjhi 3. Block Development Officer, Jalalpur 4. Circle Officer, Jalalpur
115-Baniapur	1. Block Development Officer, Baniapur 2. Circle Officer, Baniapur 3. Block Development Officer, Mashrak 4. Circle Officer, Mashrak
116-Taraiya	1. Block Development Officer, Panapur 2. Circle Officer, Panapur 3. Block Development Officer, Ishuapur 4. Block Development Officer, Taraiya
117-Marhaura	1. Block Development Officer, Marhaurra 2. Circle Officer, Marhaurra 3. Block Development Officer, Nagra 4. Circle Officer, Nagra
118-Chapra	1. Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Caste Certificate Section, Subdivision-Sadar Chapra 2. Block Development Officer, Rivilganj 3. Circle Officer, Rivilganj 4. Block Development Officer, Sadar Chapra
119-Garkha (SC)	1. Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Residential, Character, Income and Death Certificate Section, Subdivision-Sadar Chapra 2. Block Development Officer, Garkha 3. Circle Officer, Garkha 4. Circle Officer, Sadar Chapra
120-Amnour	1. Block Development Officer, Amnour 2. Circle Officer, Amnour 3. Block Development Officer, Maker 4. Circle Officer, Maker
121-Parsa	1. Block Development Officer, Parsa 2. Circle Officer, Parsa 3. Block Development Officer, Dariyapur 4. Circle Officer, Dariyapur
122-Sonapur	1. Block Development Officer, Dighwara 2. Circle Officer, Dighwara 3. Block Development Officer, Sonapur 4. Circle Officer, Sonapur
123-Hajipur	1. Circle Officer, Hajipur 2. Block Development Officer, Hajipur 3. Executive Officer, Nagar Parishad, Hajipur

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
124-Lalganj	1.Circle Officer, Bhagwanpur 2. Block Development Officer, Bhagwanpur 3. Block Development Officer, Lalganj 4.Circle Officer, Lalganj
125-Vaishali	1. Circle Officer, Goroul 2. Block Development Officer, Goroul 3. Block Development Officer, Vaishali 4. Circle Officer, Vaishali
126-Mahua	1. Circle Officer, Cehrakala 2. Block Development Officer, Cehrakala 3. Block Development Officer, Mahua 4. Circle Officer, Mahua
127-Raja Pakar (SC)	1.Circle Officer, Rajapakar 2. Block Development Officer, Rajapakar 3. Block Development Officer, Sahdei Bujurag 4. Block Development Officer, Desri
128-Raghopur	1. Circle Officer, Bidupur 2. Block Development Officer, Bidupur 3. Block Development Officer, Raghopur 4. Circle Officer, Raghopur
129-Mahnar	1.Circle Officer, Mahnar 2. Block Development Officer, Mahnar 3. Block Development Officer, Jandaha
130-Patepur (SC)	1. Circle Officer, Patepur 2. Block Development Officer, Patepur 3. Circle Officer, Jandaha
131-Kalyanpur (SC)	1. Block Development Officer, Kalyanpur 2. Block Development Officer, Pusa 3. Circle Officer, Kalyanpur 4. Circle Officer, Pusa
132-Warisnagar	1. Block Development Officer, Warisnagar 2. Block Development Officer, Khanpur 3. Circle Officer, Warisnagar 4. Circle Officer, Khanpur 5. Circle Officer, Shiwajinagar
133-Samastipur	1. Block Development Officer, Samastipur 2. Block Development Officer, Tajpur 3. Circle Officer, Samastipur (Jitwarpur) 4. Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, General Section, Subdivision-Samastipur

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
134-Ujiarpur	1.Block Development Officer, Ujiarpur 2.Block Development Officer, Dalsingsarai 3.Circle Officer, Ujiarpur 4.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Welfare Section, Subdivision-Dalsingsarai
135-Morwa	1.Block Development Officer, Morwa 2.Block Development Officer, Shahpur Patori 3.Circle Officer, Morwa 4.Circle Officer, Tajpur
136-Sarairanjan	1.Block Development Officer, Sarairanjan 2.Block Development Officer, Vidyapatnagar 3.Circle Officer, Sarairanjan 4.Circle Officer, Vidyapatnagar
137-Mohiuddinnagar	1.Block Development Officer, Mohiuddinnagar 2.Block Development Officer, Mohanpur 3.Circle Officer, Mohiuddinnagar 4.Circle Officer, Shahpur Patori 5.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Legal Section, Subdivision-Patori
138-Bibhutipur	1.Block Development Officer, Bibhutipur 2.Circle Officer, Bibhutipur 3.Circle Officer, Dalsingsarai 4.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Welfare Section, Subdivision-Rosera
139-Rosera (SC)	1.Block Development Officer, Rosera 2.Block Development Officer, Singhiya 3.Block Development Officer, Shiwaninagar 4.Circle Officer, Rosera
140-Hasanpur	1.Block Development Officer, Hasanpur 2.Block Development Officer, Bithan 3.Circle Officer, Hasanpur 4.Circle Officer, Bithan 5.Circle Officer, Singhiya
141-Cheria Bariarpur	1.Land Reform Deputy Collector , Manjhaul 2. Block Development Officer, Cheriya Bariarpur 3. Block Development Officer, Khodawandpur

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
142-Bachhwara	1. Block Development Officer, Bachhwara 2. Block Development Officer, Bhagwanpur 3. Circle Officer, Mansoorchak 4. Block Development Officer, Mansoorchak
143-Teghra	1. Block Development Officer, Barauni 2. Circle Officer, Barauni 3. Circle Officer, Teghra
144-Matihani	1. Block Development Officer, Matihani 2. Block Development Officer, Begusarai 3. Circle Officer, Matihani
145-Sahebpur Kamal	1. Land Reform Deputy Collector , Balia 2. Circle Officer, Balia 3. Block Supply Officer, Balia 4. Block Development Officer, Balia
146-Begusarai	1. Assistant District Supply Officer, Begusarai 2. Circle Officer, Begusarai 3. Circle Officer, Birpur
147-Bakhri (SC)	1. Land Reform Deputy Collector , Bakhri 2. Executive Magistrate-cum-Officer Incharge Public Grievances Section, Subdivision, Bakhari 3. Block Development Officer, Garhpura
148-Alauli (SC)	1.Executive Magistrate, Subdivision-Khagria 2.Block Development Officer, Alauli 3.Circle Officer, Alauli 4. Circle Officer, Khagaria
149-Khagaria	1. Block Development Officer, Khagaria 2. Block Development Officer, Mansi 3. Circle Officer, Mansi
150-Beldaur	1. Block Development Officer, Beldaur 2. Block Development Officer, Choutham 3. Circle Officer, Beldaur 4. Circle Officer, Choutham
151-Parbatta	1. Block Development Officer, Gogri 2. Block Development Officer, Prabatta 3. Circle Officer, Gogri 4. Circle Officer, Parbatta
152-Bihpur	1.Block Development Officer,Bihpur 2.Block Development Officer, Kharik 3.Block DevelopmentOfficer,Narayanpur 4.Circle Officer, Bihpur 5.Circle Officer, Kharik 6. Circle Officer, Narayanpur

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
153-Gopalpur	1.Block Development Officer, Naugachhia 2.Block Development Officer, Rangrachowk 3.Block Development Officer, Ismilepur 4.Block Development Officer, Gopalpur 5. Circle Officer, Gopalpur 6. Circle Officer, Naugachhia 7. Executive Magistrate, Naugachhia
154-Pirpainti (SC)	1.Executive Magistrate, Kahalgaon 2.Block Development Officer, Pirpainti 3.Circle Officer, Kahalgaon 4.Circle Officer, Pirpainti
155-Kahalgaon	1.Block Development Officer, Sanhoula 2.Block Development Officer, Goradih 3.Block Development Officer, Kahalgaon 4.Circle Officer, Sanhoula
156-Bhagalpur	1.Executive Magistrate, Sadar, Bhagalpur 2.Circle Officer, Jagdispur 3.Circle Officer, Nathnagar
157-Sultanganj	1.Block Development Officer, Sultanganj 2.Block Development Officer, Sahkund 3.Circle Officer, Sultanganj 4.Circle Officer, Sahkund
158-Nathnagar	1.Block Development Officer, Nathnagar 2.Block Development Officer, Jagdishpur 3.Block Development Officer, Sabour 4.Circle Officer, Sabour
159-Amarpur	1.Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge. District Establishment Section, Banka 2.Circle Officer, Shambhuganj 3.Circle Officer, Amarpur
160-Dhoraiya (SC)	1.Block Development Officer, Rajoun 2.Block Development Officer, Dhoraiya 3.Circle Officer, Dhoraiya 4.Circle Officer, Rajoun
161-Banka	1.Block Development Officer, Banka 2.Block Development Officer, Barahat 3.Circle Officer, Banka 4. Circle Officer, Barahat
162-Katoria (ST)	1.Block Development Officer, Bounsi 2.Circle Officer, Katoriya 3.Circle Officer, Bounsi 4.Block Development Officer, Katoriya

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
163-Belhar	1.Senior Deputy Collector-cum-District Planning Officer, Banka 2.Circle Officer, Belhar 3.Circle Officer, Chandan 4.Block Development Officer, Fullidumar 5.Block Development Officer, Belhar
164-Tarapur	1.Land Reforms Deputy Collector , Kharagpur 2.Block Development Officer, Sangrampur 3.Block Development Officer, Tarapur 4.Block Development Officer, Asarganj 5.Block Development Officer, Haveli Kharagpur 6.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Welfare Section, Subdivision-Tarapur
165-Munger	1.Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge District Revenue Section, Munger 2.Circle Officer, Sadar, Munger 3.Circle Officer, Bariyarpur 4.Block Development Officer, Sadar, Munger 5.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Establishment Section, Subdivision-Sadar Munger
166-Jamalpur	1.Block Development Officer, Jamalpur 2.Circle Officer, Dharhara 3.Circle Officer, Jamalpur 4.Circle Officer, Haveli Kharagpur
167-Suryagarha	1.Circle Officer, Suryagarha 2.Block Development Officer, Suryagarha 3.Circle Officer, Chanan 4.Block Development Officer, Pipriya 5.Block Development Officer, Chanan 6.Circle Officer, Pipriya
168-Lakhisarai	1.Block Development Officer, Ramgadh Chowk 2.Circle Officer, Halsi 3.Circle Officer, Lakhisarai 4. Block Development Officer, Halsi 5. Block Development Officer, Barhariya 6. Circle Officer, Ramgadh Chowk
169-Sheikhpura	1. Block Development Officer, Ghat Kusumbha 2. Block Development Officer,Chewara 3. Block Development Officer, Ariari

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
170-Barbigha	1. Block Development Officer, Barbigha 2. Block Development Officer, Shekhopur Sarai 3. Block Development Officer, Sheikhpura
171-Asthawan	1. Block Development Officer, Bind 2. Block Development Officer, Sarmera 3. Block Development Officer, Asthawan 4. Block Development Officer, Katrisarai 5. Circle Officer, Asthawan 6. Circle Officer, Bind
172-Biharsharif	1. Block Development Officer, Biharsharif 2. Block Development Officer, Rahui 3. Circle Officer, Rahui 4. Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Election Section, Subdivision-Biharsharif 5. Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Welfare Section, Subdivision-Biharsharif
173-Rajgir (SC)	1. Land Reforms Deputy Collector, Rajgir 2. Block Development Officer, Silao 3. Block Development Officer, Rajgir 4. Block Development Officer, Giriyak 5. Circle Officer, Biharsharif
174-Islampur	1. Block Development Officer, Ekangarsarai 2. Block Development Officer, Islampur 3. Circle Officer, Islampur 4. Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Welfare Section, Subdivision-Hilsa 5. Circle Officer, Ekangarsarai
175-Hilsa	1. Block Development Officer, Hilsa 2. Block Development Officer, Parwalpur 3. Block Development Officer, Karaipersurai 4. Block Development Officer, Tharthari 5. Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Establishment Section, Subdivision-Hilsa 6. Circle Officer, Hilsa 7. Circle Officer, Tharthari 8. Circle Officer, Karaipersurai

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
176-Nalanda	1. Block Development Officer, Noorsarai 2. Block Development Officer, Ben 3. Circle Officer, Silao 4. Circle Officer, Noorsarai 5. Circle Officer, Ben 6. Circle Officer, Rajgir 7. Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge, District Disaster Management, Nalanda
177-Harnaut	1. Block Development Officer, Chandi 2. Block Development Officer, Harnaut 3. Circle Officer, Nagarnusa 4. Circle Officer, Chandi 5. Circle Officer, Harnaut 6. Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge, District Janshikayat Section, Nalanda 7. Block Development Officer, Nagarnusa
178-Mokama	1. Block Development Officer, Pandarak 2. Block Development Officer, Mokama 3. Block Development Officer, Ghoswari 4. Circle Officer, Pandarak 5. Circle Officer, Mokama 6. Circle Officer, Ghoswari 7. Executive Magistrate, Barh
179-Barh	1. Block Development Officer, Barh 2. Block Development Officer, Belchhi 3. Block Development Officer, Athmalgola 4. Circle Officer, Barh 5. Circle Officer, Belchhi 6. Circle Officer, Athmalgola
180-Bakhtiarpur	1. Block Development Officer, Bakhtiarpur 2. Block Development Officer, Khusrupur 3. Block Development Officer, Daniyawan 4. Circle officer, Bakhtiarpur 5. Circle Officer, Khushrupur

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
181-Digha	1. Senior Deputy Collector -cum-Officer Incharge, Establishment Section, Subdivision Sadar Patna 2. Block Development Officer, Patna Sadar 3. Circle Officer, Patna Sadar 4. Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge, District Revenue Section, Patna 5. Executive Magistrate, Patna Sadar 6. School Sub-Inspector, Gardanibag Circle, Patna 7. Child Development Project Officer, Patna Sadar-1
182-Bankipur	1. Senior Deputy Collector-cum-officer Incharge, District Legal Section, Patna 2. Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge, District Janshikayat Section, Patna 3. Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge District Certificate Section, Patna 4. Child Development Project Officer, Patna Sadar-2 5. Executive Officer, Nutan Rajdhani Circle, Patna Nagar Nigam, Patna 6. Executive Officer, Bankipur Circle, Patna Nagar Nigam, Patna 7. School Sub-Inspector, Golghar Circle, Patna 8. Block Statistical Officer, Patna Sadar
183-Kumhrar	1. Deputy Rationing Officer, Patna 2. Senior Deputy. Collector-cum-Officer Incharge, District Arms Section, Patna 3. Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge, District Land Acquisition Officer (Senior), Patna 4. Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge, District Land Acquisition Officer (Junior), Patna 5. District Programme Officer, Patna, (Secondary Education) 6. Child Development Project Officer, Patna Sadar-3 7. Assistant Rationing Officer, Patna 8. Marketing Officer, Patna Rationing

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
184-Patna Sahib	1. Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge, Supply Section, Subdivision-Patna 2. Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge, Establishment section, Subdivision-Patna 3. Block Development Officer, Sampatchak 4. Circle Officer, Daniyawar 5. Block Development Officer, Patna Sadar 6. Executive Magistrate-1, Patna City 7. Executive Magistrate-2, Patna City 8. Child Development Project Officer, Patna Sadar-5
185-Fatuha	1. Block Development Officer, Fatuha 2. Circle Officer, Fatuha 3. Circle Officer, Sampatchak 4. Block Development Officer, Sampatchak
186-Danapur	1. Senior Deputy Collector-cum-Officer Incharge, Establishment Section, Subdivision-Danapur 2. Block Development Officer, Danapur 3. Circle Officer, Danapur 4. Executive Magistrate, Danapur 5. Child Development Project Officer, Danapur
187-Maner	1. Block Development Officer, Maner 2. Circle Officer, Maner 3. Block Development Officer, Bihta 4. Circle Officer, Bihta
188-Phulwari (SC)	1. Block Development Officer, Phulwarisharif 2. Circle Officer, Phulwarisharif 3. Block Development Officer, Punpun 4. Circle Officer, Punpun
189-Masaurhi (SC)	1. Block Development Officer, Masaurhi 2. Circle officer, Masaurhi 3. Block Development Officer, Dhanarua 4. Circle Officer, Dhanarua 5. Child Development Project Officer, Masaurhi
190-Paliganj	1. Block Development Officer, Paliganj 2. Circle Officer, Paliganj 3. Block Development Officer, Dulhin Bazaar 4. Circle Officer, Dulhin bazaar 5. Executive Magistrate, Subdivision Paliganj

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
191-Bikram	1.Block Development Officer, Bikram 2. Circle Officer, Bikram 3. Block Development Officer, Naubatpur 4. Circle Officer, Naubatpur
192-Sandesh	1.Block Development Officer, Udwantnagar 2.Circle Officer, Koilwar 3.Block Development Officer, Sandesh 4.Circle Officer, Sandesh
193-Barhara	1.Block Development Officer, Barhara 2.Circle Officer, Barhara 3.Block Development Officer, Koilwar 4.Circle Officer, Arrah
194-Arrah	1.Block Development Officer, Arrah 2.Circle Officer, Arrah 3.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Election Section,Subdivision-Arrah Sadar
195-Agiaon (SC)	1.Circle Officer, Garhani 2.Block Development Officer, Charpokhari 3.Block Development Officer, Agiaon 4.Circle Officer, Agiaon
196-Tarari	1.Block Development Officer,Tarari 2.Block Development Officer, Sahar 3.Circle Officer, Tarari 4.Circle Officer, Piro
197-Jagdishpur	1.Block Development Officer, Jagdishpur 2.Block Development Officer, Piro 3.Circle Officer, jagdishpur 4.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge, Development Section, Subdivision-Jagdishpur
198-Shahpur	1.Block Development Officer, Shahpur 2.Circle Officer, Shahpur 3.Block Development Officer, Bihiyan 4.Circle Officer, Bihiyan
199-Brahampur	1.Senior Deputy Collector-cum- Officer Incharge, District Revenue Section, Collectorate, Buxar 2.Block Development Officer, Brahampur 3.Block Development Officer, Chakki 4.Circle Officer, Chakki
200-Buxar	1.Block Development Officer, Buxar 2.Block Development Officer, Chausa 3.Executive Magistrate, Subdivision-Buxar 4.Circle Officer, Buxar

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
201-Dumraon	1.Block Development Officer, Navanagar 2.Block Development Officer, Kesath 3.Circle Officer, Dumraon 4.Executive Magistrate, Subdivision-Dumraon
202-Rajpur (SC)	1.Executive Officer, Nagar Parisad, Buxar 2.Block Development Officer, Rajpur 3.Circle Officer, Itardhi Circle Officer, Rajpur
203-Ramgarh	1.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge General Section, Subdivision-Mohania 2.Block Development Officer, Ramgarh 3.Block Development Officer, Durgawati 4.Block Development Officer, Nuoan 5.Circle Officer, Ramgarh 6.Circle Officer, Durgawati 7.Circle Officer, Nuoan
204-Mohania (SC)	1.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge Nazarat Section, Subdivision-Mohania 2.Block Development Officer, Mohania 3.Block Development Officer, Kudra 4.Circle Officer, Mohania 5.Circle Officer, Kudra
205-Bhabua	1.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge Nazarat Section, Subdivision-Bhabua 2.Block Development Officer, Bhabhua 3.Block Development Officer, Rampur 4.Circle Officer, Bhabhua 5.Circle Officer, Rampur 6. Executive Officer, Nagar Parishad, Bhabua
206-Chainpur	1.Executive Magistrate-cum-Officer Incharge Welfare Section, Subdivision-Bhabua 2.Block Development Officer, Chand 3.Block Development Officer, Chainpur 4.Block Development Officer, Bhagwanpur 5.Block Development Officer, Adhaura 6.Circle Officer, Chand 7.Circle Officer, Chainpur 8.Circle Officer, Bhagwanpur 9.Circle Officer, Adhaura

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
207-Chenari (SC)	1. Block Development Officer, Chenari 2. Block Development Officer, Shivsagar 3. Block Development Officer, Rohtas 4. Block Development Officer, Nauhatta
208-Sasaram	1. Senior Deputy Collector, Sasaram-cum-Deputation Executive Magistrate, Sasaram Subdivision 2. Executive Officer, Nagar Parisad, Sasaram, Rohtas 3. Block Development Officer, Tilauthu, Rohtas 4. Block Development Officer, Sasaram, Rohtas
209-Kargahar	1. Circle Officer, Kargahar, Rohtas 2. Block Development Officer, Kochas, Rohtas 3. Block Development Officer, Kargahar, Rohtas 4. Circle Officer, Shivsagar, Rohtas
210-Dinara	1. Block Development Officer, Dawath 2. Block Development Officer, Dinara 3. Circle Officer, Suryapura 4. Circle Officer, Dawath
211-Nokha	1. District Planning Officer, Rohtas 2. Block Development Officer, Nokha 3. Block Development Officer, Rajpur 4. Block Development Officer, Nasriganj
212-Dehri	1. Deputy Collector Land Reform, Dehri 2. Block Development Officer, Dehri 3. Block Development Officer, Akodhigola 4. Circle Officer, Dehri
213-Karakat	1. Assistant Registrar Cooperative Societies, Bikramganj Circle 2. Block Development Officer, Karakat 3. Block Development Officer, Bikramganj 4. Circle Officer, Sanjhulli
214-Arwal	1. Block development Officer , Arwal 2. Block development Officer, Kaler 3. Circle Officer, Arwal 4. Executive Magistrate, Arwal

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
215-Kurtha	1. Block development Officer, Karpi 2. Block development Officer., Sonbadhra-Bansi-Suryapur 3. Block development Officer., Kurtha
216-Jehanabad	1. Block Development Officer, Jehanabad 2. Circle Officer, Jehanabad 3. Block Development Officer, Ratni
217-Ghosi	1. Block Development Officer, Ghosi 2. Block Development Officer, Hulasganj 3. Circle Officer, Modanganj
218-Makhdumpur (SC)	1. Block Development Officer, Makhdumpur 2. Block Development Officer, Kako 3. Circle Officer, Makhdumpur
219-Goh	1. Block Development Officer, Haspura 2. Block Development Officer, Goh 3. Circle officer, Haspura
220-Obra	1. Block Development Officer, Daudnagar 2. Block Development Officer, Obra 3. Circle Officer, Daudnagar
221-Nabinagar	1. Block Development Officer, Barun 2. Block Development Officer, Nabinagar 3. Circle Officer, Barun
222-Kutumba (SC)	1. Block Development Officer, Kutumba 2. Block Development Officer, Deo 3. Circle Officer, Kutumba
223-Aurangabad	1. Block Development Officer, Aurangabad 2. Circle Officer, Deo 3. Circle Officer, Aurangabad
224-Rafiganj	1. Block Development Officer, Rafiganj 2. Block Development Officer, Madanpur 3. Circle Officer, Rafiganj
225-Gurua	1. Block Development Officer, Guraru 2. Block Development Officer, Paraiya 3. Block Development Officer, Gurua 4. Circle Officer, Guraru 5. Circle Officer, Paraiya 6. Circle Officer, Gurua.

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
226-Sherghati	1. Executive Officer, Nagar Panchayat, Sherghati 2. Block Development Officer, Sherghati 3. Block Development Officer, Dobhi 4. Block Development Officer, Amas 5. Circle Officer, Sherghati 6. Circle Officer, Dobhi 7. Circle Officer, Amas.
227-Imamganj (SC)	1. Block Development Officer, Dumariya 2. Block Development Officer, Imamganj 3. Block Development Officer, Bankebazar 4. Circle Officer, Dumariya 5. Circle Officer, Imamganj 6. Circle Officer, Bankebazar
228-Barachatti (SC)	1. Circle Officer, Bodhgaya 2. Block Development Officer, Barachatti 3. Block Development Officer, Mohanpur 4. Circle Officer, Mohanpur 5. Circle Officer, Barachatti
229-Bodh Gaya (SC)	1. Executive Officer, Nagar Panchayat Bodhgaya 2. Block Development Officer, Bodhgaya 3. Block Development Officer, Tankuppa 4. Block Development Officer, Fatehpur 5. Circle Officer, Tankuppa 6. Circle Officer, Fatehpur
230-Gaya Town	1. Additional Municipal Commissioner, Gaya Nagar Nigam 2. Executive Engineer (1) Gaya Nagar Nigam 3. Block Development Officer, Nagar Block 4. Executive Magistrate Subdivision Sadar Gaya 5. Child Development Project Officer Nagar Block, Gaya.
231-Tikari	1. Executive Officer, Nagar Panchayat, Tikari 2. Block Development Officer, Tikari 3. Block Development Officer, Konch 4. Circle Officer, Tikari 5. Circle Officer, Konch
232-Belaganj	1. Block Development Officer, Belaganj 2. Circle Officer, Belaganj 3. Circle Officer, Nagar Gaya 4. Child Development Project Officer, Belaganj

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
233-Atri	1.Block Development Officer, Khijarsarai 2.Block Development Officer, Neemchak Bathani 3.Block Development Officer, Atri 4.Block Development Officer, Mohra 5.Circle Officer, Khijarsarai 6.Circle Officer, Neemchak Bathani 7.Circle Officer, Atri 8.Circle Officer, Mohra
234-Wazirganj	1.Executive Engineer (II), Gaya Nagar Nigam 2.Block Development Officer, Wazirganj 3.Block Development Officer, Manpur 4.Circle Officer, Wazirganj 5.Circle Officer, Manpur 6.Child Development Project Officer, Manpur
235-Rajauli (SC)	1.Block Development Officer, Rajauli 2.Block Development Officer, Meskaur 3.Block Development Officer, Sirdala 4.Circle Officer, Sirdala
236-Hisua	1.Block Development Officer, Hisua 2.Block Development Officer, Akbarpur 3.Block Development Officer, Narhat 4.Circle Officer, Narhat
237-Nawada	1.Block Development Officer, Nawada Sadar 2.Block Development Officer, Nardiganj 3. Circle Officer, Nawada Sadar 4. Circle Officer, Nardiganj
238-Gobindpur	1.Block Development Officer, Gobindpur 2.Block Development Officer, Kawakol 3.Block Development Officer, Roh 4.Circle Officer, Gobindpur
239-Warsaliganj	1.Block Development Officer, Warisaliganj 2.Block Development Officer, Pakribarawan 3.Block Development Officer, Kashichak 4.Circle Officer, Pakribarawan
240-Sikandra (SC)	1.Circle Officer, Islamnagar Aliganj 2.Block Development Officer, Sikandara 3.Block Development Officer, Khaira
241-Jamui	1.Block Development Officer, Jamui 2.Block Development Officer, Barhat 3.Circle Officer, Khaira 4.Circle Officer, Jamui

No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
242-Jhajha	1.Block Development Officer, Laxmipur 2.Block Development Officer, Gidhour 3.Block Development Officer, Jhajha
243-Chakai	1.Block Development Officer, Sono 2.Block Development Officer, Chakai 3.Circle Officer, Chakai

By Order,
R. K. SRIVASTAVA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1076-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>